



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 माघ 1945 (श10)

(सं0 पटना 114) पटना, सोमवार, 12 फरवरी 2024

सं० BMSK-09/2024 Part-I-47

योजना एवं विकास विभाग
(बिहार मौसम सेवा केन्द्र)

संकल्प

9 फरवरी 2024

विषय : राज्य योजना अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग के अधीन कार्यरत बिहार मौसम सेवा केन्द्र को सृजित पदों सहित गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार मौसम केन्द्र में सृजित पदों के विरुद्ध 05 वर्षों के लिए विभिन्न पदों पर नियोजन किया गया है, जिनका मानदेय राज्य योजना के सहायक अनुदान मद से भारित होता है। बिहार मौसम सेवा केन्द्र द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन किया जाता है:-

- स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) तथा स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) के संचालन हेतु (Operation) एवं रख-रखाव (Maintenance) संबंधी कार्यों का अनुश्रवण (Monitoring) तथा उनसे प्राप्त आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, पूर्वानुमान, व्याख्या एवं प्रसारण।
- बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी के द्वारा स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) तथा स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर एकीकृत रूप से प्रखंडवार/पंचायतवार वर्षा का पूर्वानुमान (Rain forecasting), मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecasting), वर्षा जल का मापन (Rain Water Measurement), मौसम के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का मापन, बाढ़ का पूर्वानुमान (Flood Forecasting), प्राकृतिक आपदा संबंधी सूचना, भूमिगत जल की उपलब्धता (Availability of Ground water), संबंधित सूचना प्राप्त करना, नदियों में वर्षा जल का स्त्राव का आकलन से संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध कराना संभव हो पाता है।

- (iii) बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी के द्वारा स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) तथा स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर एकीकृत रूप से प्रखंडवार/पंचायतवार राज्य में जलवायु संबंधी आपदाएं यथा—बाढ़, सुखाड़, वज्रपात, शीतलहर, लू, कुहासा इत्यादि पर निगरानी रखना एवं पूर्वानुमान के साथ सलाह/सूचना देना।

2. बिहार मौसम सेवा केन्द्र अंतर्गत सृजित पदों की विवरणी:-

2.1 प्रशासनिक पद

क्र०सं०	पद नाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	निदेशक	01	प्रतिनियुक्ति के आधार पर
2	प्रशासी पदाधिकारी	01	तथैव
3	वित्तीय नियंत्रक	01	बिहार वित्त सेवा के अधिकारी (प्रतिनियुक्ति के आधार पर)
4	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	01	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से
5	अवर सांख्यिकी पदाधिकारी	01	तथैव
6	उच्च वर्गीय लिपिक	01	तथैव
7	निम्न वर्गीय लिपिक	02	तथैव
8	स्टेनोग्राफर/टंकक	02	तथैव
कुल पद		10	

2.2 विशेषज्ञ/तकनीकी पद

क्र०सं०	पद नाम	पदों की संख्या
1	संयुक्त निदेशक (तकनीकी)	01
2	वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (वरीय वैज्ञानिक)	02
3	वैज्ञानिक पदाधिकारी (वैज्ञानिक)	06
4	कनीय वैज्ञानिक पदाधिकारी (कनीय वैज्ञानिक)	10
5	वरीय वैज्ञानिक सहायक	08
6	क्षेत्रीय/तकनीकी/वैज्ञानिक सहायक (क्षेत्र में उपकरणों के रख-रखाव)	16
कुल पद		43

3. उपर्युक्त कंडिका 2.2 में वर्णित पदों पर विषय विशेषज्ञ/वैज्ञानिकों को संविदा आधारित नियोजन किया जाता है तथा उक्त के माध्यम से विषयांकित महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित कराया जाता है। इस योजना के भविष्य में भी बने रहने की आवश्यकता है। अतएव बार-बार अवधि विस्तार किये जाने से केन्द्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अनावश्यक व्यवधान हो सकता है, फलतः कार्यहित में इन पदों को योजना मद से गैर-योजना मद में स्थानांतरण किया जाता है।
4. बिहार मौसम सेवा केन्द्र द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आंकड़ों का प्रेषण तथा तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जायेगा, ताकि राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए तत्क्षण आवश्यक कदम उठाया जा सके।

5. वर्तमान में कंडिका 2.2 में वर्णित तकनीकी पदों पर कार्यरत मानवबल के मानदेय पर प्रतिवर्ष 18.18 करोड़ राशि की व्यय हो रही है। मासिक मानदेय से संबंधित विवरणी **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।
6. उपरोक्त पदों का योजना से गैर योजना में स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद अंतर्गत सहायक अनुदान मद के लिए वित्त विभाग के माध्यम से नये बजट शीर्ष खोला जायेगा।
7. राज्य योजना मद अंतर्गत योजना एवं विकास विभाग के अधीन कार्यरत बिहार मौसम सेवा केन्द्र को सृजित पदों सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 से स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) मद में स्थानांतरण किया जाता है।
8. बिहार मौसम सेवा केन्द्र में कार्यरत तकनीकी मानव बल यथा कंडिका 2.2 में वर्णित पदों के मानदेय को संलग्न **अनुलग्नक-ख** के अनुरूप संशोधित किये जाने एवं मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि तथा अन्य भत्ते की स्वीकृति दी जाती है। अन्य भत्ते में यथा मकान किराया भत्ता तथा परिवहन भत्ता के संबंध में निर्णय बिहार मौसम सेवा केन्द्र सोसाईटी के द्वारा ली जायेगी।
9. बिहार मौसम सेवा केन्द्र अंतर्गत कंडिका 2.2 में यथा वर्णित सृजित पदों के विरुद्ध मानव बल का संविदा आधारित नियोजन 10 वर्षों के लिए की जायेगी तथा इन नियोजित मानव बलों की सेवा वार्षिक कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उक्त 10 वर्षों के आगे भी 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया जा सकेगा। वार्षिक मूल्यांकन संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में सोसाईटी को अधिकार होगा ऐसे कर्मियों की सेवा 1 माह पूर्व सूचना के आधार पर कभी भी समाप्त की जा सकेगी। सभी तकनीकी पद विषय विशेषज्ञ प्रकृति की है एवं इस तरह के पद पर सरकार में संभवतः कर्मी कार्यरत नहीं है। फलतः इन तकनीकी पदों पर विषय विशेषज्ञ/वैज्ञानिकों को संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाती है।
10. बिहार मौसम सेवा केन्द्र के वर्तमान सांगठनिक ढाँचा में आंशिक परिवर्तन करते हुए **अनुलग्नक-ग** के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की जाती है।
11. दिनांक 06.02.2024 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रस्ताव सं0-14 के रूप में उपर्युक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

अनुलग्नक-उपरोक्त।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के. सेंथिल कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

(अनुलग्नक : क)


बिहार मौसम सेवा केन्द्र में कार्यरत/स्वीकृत पदों के मानदेय से संबंधित विवरणी:-

पद नाम	कुल सृजित पदों की संख्या	धारित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	मासिक मानदेय की राशि
1	2	3	4	5
Joint Director (Technical)	1	1	-	115000
Senior Scientific Officer (Senior Scientist) (Geology)	1	-	1	100000
Senior Scientific Officer (Senior Scientist) (Hydro-Meteorological)	1	-	1	100000
Scientific Officer (Scientist) (Meteorology/Climatology)	1	1	-	75000
Scientific Officer (Scientist) (Hydrology)	1	1	-	75000
Scientific Officer (Scientist) (Seismology)	1	1	-	75000
Scientific Officer (Scientist) (Remote Sensing and GIS Application)	1	-	1	75000
Scientific Officer (Scientist) (Database Management & Networking)	1	1	-	75000
Scientific Officer (Scientist) (Information Dissemination)	1	1	-	75000
Junior Scientific Officer (Junior Scientist) (Meteorology/Climatology)	2	1	1	60000
Junior Scientific Officer (Junior Scientist) (Hydrology)	2	1	1	60000
Junior Scientific Officer (Junior Scientist) (Seismology)	2	1	1	60000
Junior Scientific Officer (Junior Scientist) (Remote Sensing and GIS Application)	2	1	1	60000
Junior Scientific Officer (Junior Scientist) (Information Dissemination)	2	1	1	60000
Senior Scientific Assistant/Technical Assistant	8	-	8	55000
Field/Technical/Scientific Assistant	16	14	2	45000

के. सेंथिल कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

Monthly Honorarium of Scientific/ Technical Staff (On Contractual Basis) For Each					
Serial No	Nature of post	No of Posts	Monthly Basic Honorarium	Present Honorarium	Proposed Honorarium Slab
1	Joint Director (Technical)	1	115000	126788	200000-255000
2	Senior Scientist Officer	2	100000	0	160000-200000
3	Scientific Officer	6	75000	82688	125000-160000
4	Junior Scientific Officer	10	60000	66150	75000-95000
5	Technical Assistant	8	55000	0	70000-90000
6	Field/ Technical/Scientific Assistant	16	45000	45000	60000-75000

के. सेंथिल कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।



अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 114-571+50-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>